

दिनांक 27, अक्टूबर, 2017 को सायं 07:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश (एम.सी.यू.पी.), JCI कानपुर तथा कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान से “भगवद्गीता के उपदेशों के साथ जीवन प्रबंधन (Managing Life with Bhagwad Gita)” पर सत्र का आयोजन किया गया।

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी ने मर्चेट्स चैम्बर की ओर से JCI कानपुर तथा कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन से उपस्थित समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया।

उक्त सत्र को सेवानिवृत्त-आई.एस.एस. अधिकारी श्री विनोद मल्होत्रा, ने उपरोक्तलिखित विषय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री मल्होत्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यों को उत्सुकता से जीवन जीने की कला भगवद्गीता के माध्यम से समझाया एवं उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सदियों पुराने लेख का आज के समाज से रिश्ता जोड़ा। श्री मल्होत्रा ने प्रासंगिक विवरण देते हुए उपस्थित सदस्यों को भगवद् गीता से प्राप्त होने वाले उचित मार्गदर्शनों का बोध कराया। उन्होंने कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे मेरा धर्म क्या है, अन्याय के विरुद्ध आवाज, व्यक्ति का भाग्य, जीवन के सुख तथा मन की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र के मुख्य-अतिथि श्री दुर्गा चरण दास,आर.आर.एस., मुख्य आयुक्त-1, कर विभाग, ने किया।

सत्र का संचालन श्री अमित अग्रवाल ने किया एवं धन्यवाद-प्रस्ताव श्री अमित जैन ने प्रस्तुत किया।

सत्र में उपस्थित गणमान्य: आयोजित सत्र में श्री जे.के. लोहिया, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री नवीन खन्ना, श्री विजय पण्डे, श्री अविनाश चौबे, श्री महेंद्र मोदी, श्री अतुल मेहरोत्रा, अमित जैन, JCI कानपुर व कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश